




# जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स



आधुनिक कृषि यंत्रों के निर्माता व विक्रेता

(सबसेडी मान्यता प्राप्त)



## Maize Thresher Operator's Manual

जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



# Our Products

(सबसीडी मान्यता प्राप्त)




**Tractor Operated  
Chaff Cutter**



**Multicrop Thresher**



**Maize Thresher**



**Motor Operated  
Chaff Cutter**

जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

# जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स ऑपरेटर मार्गदर्शिका

## अनुक्रमणिका

अ.नं.	विवरण	नंबर
1	थ्रेशर मालिक को हार्दिक अभिनंदन पत्र	1
2	थ्रेशर की डिलीवरी लते समय इन बातों का ध्यान रखें	2
3	थ्रेशर में अकस्मात को रोकने के लिए चेतावनी	3
4	Safty symbols	4
5	थ्रेशर चलाने के लिए सूचना	5
6	थ्रेशर का जगह	7
7	लुब्रिकेशन (ऑइल-ग्रीस)	7
8	थ्रेशर की देखभाल और रखरखाव	8
9	थ्रेशर में समस्या और सुझाव	9
10	वारंटी और सर्विस	14
11	Warnty card	15

जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

## प्रिय थ्रेशर मालिक को हार्दिक अभिनंदन पत्र

प्रिय थ्रेशर मालिक  
सर्वश्रेष्ठ थ्रेशर पसंद करने और खरीदने के लिये  
आपको बहुत बहुत धन्यवाद.....

यह थ्रेशर कई प्रकार की कसोटियों में से पसार करने के बाद ही आप को सोपा जा रहा है। आप अब किसी भी मुसीबत के बिना लंबे समय तक भिन्न फसलें इस थ्रेशर से ले सकते हैं। यह मार्गदर्शिका आपको इस थ्रेशर के बारे में पूर्ण जानकारी मिले इसलिये है। इसका अभ्यास करके उस मुताबिक थ्रेशर चलाने से आप बिल्कुल सरलता से और सलामती से थ्रेशर का उपयोग कर सकते हैं ऐसा हमारा मनना है।

आपकी थोड़ी सी देखभाल हमारे थ्रेशर को श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए लंबे समय तक सक्षम रख सकता है। इस थ्रेशर की बिक्री के साथ ही आपके और हमारे बीच एक अतूट रिश्ता कायम होता है। थ्रेशर के बारे में कोई भी शिकायत है तो मदत करने के लिये हम हमेशा तयार हैं।

शुभेच्छा सह  
जांगिड एग्रो इंजिनियर

नोंध

किसान भाईयों को थ्रेशर चलाने के लिए कुछ नियमों पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसलिये किसान भाईयो को इस पुस्तक में दी गई बातों के मुताबिक अभ्यास करके थ्रेशर चलाने से कोई भी फसल में दाना तुटता नहीं है, कचरा आता नहीं है, उडता नहीं है और दाना साफ आता है।

**जांगिड एग्रो इंजिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



## थ्रेशर की डिलीवरी लेते समय इन बातों का ध्यान रखें

- 1) थ्रेशर के स्पेअरपार्ट्स कहीं से टूटा न हो इसकी जाँच खुद करें।
- 2) थ्रेशर के सभी भाग उसकी सही जगह पर लगे हैं कि नहीं यह देख ले।
- 3) थ्रेशर के सभी छोटे भागों के नट-बोल्ट और वेल्डिंग बराबर हैं कि नहीं यह जाँच लें।
- 4) थ्रेशर का गीयर बॉक्स, अेक्सल, बेरिंगे, ऑटोफीडर गीयर बॉक्स इत्यादि तमाम गुमने वाले भागों में ऑइल ग्रीस किया गया है कि नहीं यह जाँच लें।
- 5) थ्रेशर के मॉडेल और आपके ऑर्डर के मुताबिक गेहूं, बाजरा, अेरंडा, मक्का, तुवर, चना, सोयाबीन इत्यादि के सेट कटर (कोनकेव) और जालिया दी जाती है। वह सेट पूरा है कि नहीं यह जाँच लें।
- 6) थ्रेशर के साथ थ्रेशर साइड जॉइंट, खपा (तवा), छालने कि छोटी सुपडी, पाना सेट और डबल शाफ्ट (कंबाइन) थ्रेशर हो तो अतिरिक्त दो वी-बेल्ट (पट्टे) या एक टोपा पुली, चार अेरंडे के पाटे या आठ रोटर के सादे पाटे और थ्रेशर मार्गदर्शिका बुक दिया जाता है।
- 7) यदि संभव हो तो थ्रेशर खरीदते समय ट्रैक्टर पर थ्रेशर चालू करके देख ले।

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

## श्रेशर में अकस्मात को रोकने के लिए चेतावनी

ISI की सूचना के मुताबिक श्रेशर में अकस्मातों को रोकने के लिये नीचे दी गई चेतावनीओं का हमेशा चुस्ती से पालन करना जरूरी है।

- 1) श्रेशर पर काम करते वक्त खुले (जैसे की धोती, उड़ती हुई साड़ी या लूंगी), चूड़ियां, घड़ी जैसी चीजों को न पहने।
- 2) श्रेशर पर काम करते वक्त धूम्रपान न करें और नजदीक में आग जलाने वाली चीजें न रखें और न लाएं।
- 3) नशीले पदार्थ जैसे शराब, अफीम की असर के साथ श्रेशर पर काम न करें।
- 4) जब श्रेशर चालू हो या उसे दूसरी जगह ले जाना हो तब उसके ऊपर ना चढ़े या ना खड़े रहें।
- 5) श्रेशर चालू हो तब जॉइंट किया बेल्ट न लगे इसका ध्यान रखें।
- 6) बच्चों या ज्यादा उम्र के लोग श्रेशर पर काम न करें।
- 7) फसल को धकेलने के लिए उचित साधन का उपयोग करें।
- 8) थकी हुई या ज्यादा समय तक नींद न लेने वाले लोग श्रेशर पर काम न करें।
- 9) गार्ड रक्षक या अन्य सुरक्षा के साधनों के बिना श्रेशर को न चलायें।
- 10) चालू श्रेशर में व्यवस्था का बदलाव न करें।
- 11) जब पूली चल रही हो तब बेल्ट को ना चढ़ायें या न उतारे।
- 12) श्रेशर चालू हो तब एक निश्चित तरह की आवाज आती है। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवाज आये तो श्रेशर को बंद करके जांच कर ले।
- 13) श्रेशर चालू हो तब ट्रैक्टर का रेस अचानक ज्यादा या कम ना करें।
- 14) श्रेशर चलाने का अनुभव हो उसी व्यक्ति को श्रेशर चलाना चाहिए।
- 15) श्रेशर के सुपडे में फसल डालते समय सुपडे के सामने की ओर खड़े न रहे।
- 16) श्रेशर ले जाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करना ही अच्छा है। जीप के पीछे श्रेशर ले जाना खतरनाक है।











**जांगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



## SAFETY SYMBOLS

	Do not stand on thresher during operation or transportation
	Do not put or take off belt while pulley is rotating
	Do not feed earheads by hand
	Do not work under the influence of intoxicants like liquor, opium etc.
	Do not smoke and light fire near threshing yard and thresher
	Children and aged persons should be discouraged for feeding the crop
	Do not cross over the running belts
	Do not make adjustments while thresher is working
	Do not work when tired
	Do not wear loose dress, bangles, watch etc. while working

जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

## श्रेशर चलाने के लिए सूचना

- 1) श्रेशर को चलाने के लिए 5 वयस्क लोगों की जरूरत पड़ती है।
  - एक व्यक्ति फसल को श्रेशर के पास रखता जाता है।
  - दूसरा व्यक्ति श्रेशर के टेबल पर फसल को रखता है।
  - तीसरा व्यक्ति सुपड़ा में फसल को डालता है।
  - चौथा व्यक्ति धान को बोरी में डालता रहता है।
  - पांचवी व्यक्ति श्रेशर और ट्रैक्टर की देखभाल रखता है।
- 2) श्रेशर का ड्राइव जॉइंट ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट के साथ सेट हो इस तरह आपके ट्रैक्टर के हुक में बदलाव करवा ले।
- 3) श्रेशर को ट्रैक्टर के हुक के साथ लगाकर श्रेशर और ट्रैक्टर को एक लाइन में लगाये।
- 4) ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट में ड्राइव जाइंट सेट करके ड्राइव जॉइंट पर दिए गए होल में नट बोल्ट टाइट कर ले।
- 5) श्रेशर चालू करने से पहले श्रेशर के आसपास खड़े लोगों को दूर रहने की सूचना देकर धीरे-धीरे श्रेशर को सही गति में लाये।
- 6) श्रेशर जरूरत के मुताबिक गति पकड़ ले इसके बाद ही सुपड़ा सेट करके सूखी फसल डालना शुरू करें कच्चा ना रहे पंखे में से दाना न उड़े इस तरह की गति को नियंत्रित करें।
- 7) श्रेशर में एक समान मात्रा में फसल डालना चाहिए जिससे एवरेज बनी रहे, लोड एक सा रहने से समान सफाई वाला अनाज निकलता है।
- 8) सुपड़ा में डालते समय हाथ दूर रखने चाहिए। कभी भी सुपड़े पर चढ़कर फसल को न डालें टेबल पर खड़े रहकर ही डालें।
- 9) श्रेशर में जब पूले डाले जा रहे हो तब खरपड़ी लोखंड या लकड़ी के टुकड़े, छोटे औजार, पत्थर या खिले जैसी चीजें न जाए इस बात का ध्यान रखें।

**जांगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



- 10) थ्रेशर चालू करने के बाद सुपडी में से दाने निकलना शुरू हो तब धान्य को साफ करने वाले पंखे का हैंडल और थ्रेशर की चेंबर के नीचे के भाग में दिए गए गिरी वाले पडदे सेट करें जिससे साफ धान्य मिलेगा।
- 11) थ्रेशर के छलना में कुछ फँस जाए तो पावडी, खपा का उपयोग करें।
- 12) थ्रेशर चालू हो तो निश्चित प्रकार की आवाज आती है इस आवाज में बदलाव होने पर तत्काल थ्रेशर को बंद कर गियर बॉक्स, एक्सेंट्रिक ड्राइव, छलना, पूली, रोटर के पाटे, हवा के पंखे इत्यादि के नट बोल्ट जाँच करके जरूरत पड़ने पर उसको टाइट कर ले।
- 13) हर रोज थ्रेशर चालू करने से पहले ग्रीस ऑइल और सभी नट बोल्ट को जाँच करने के बाद ही थ्रेशर को ट्रैक्टर के साथ लगाना थ्रेशर के लिए अच्छा है।
- 14) थ्रेशर का कुछ उपयोग होने के बाद यदि पट्टे भी (वी- बेल्ट) ढीले पड़ गए हो तो सपोर्ट पुली का उपयोग करके पट्टे टाइट करें।
- 15) थ्रेशर चालू करने से पहले अकस्मात के लिए दी गई चेतावनी को पूरी तरह से समझना आपके लिए जरूरी है।

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

## थ्रेशर की जगह

- थ्रेशर को समतल जमीन पे रखना अच्छा है।
- थ्रेशर को पूले के आस पास रखे जिससे उसे डालने में सरलता रहती है।
- भूगले में से निकलता हुआ भूसा पवन की दिशा में उड़े इस तरह थ्रेशर को लगाना जरूरी है
- थ्रेशर को झनझनाहट से बचाने के लिए टायरों के आसपास पत्थर रखकर सपोर्ट देना आवश्यक है।

## लुब्रिकेशन (ऑइल-ग्रीस)

- 1) थ्रेशर की सीजन के दौरान यदि थ्रेशर 50 घंटे चलता है तो हर 50 घंटे के बाद पेडेस्टल (बेरिंग) में ग्रीस और गियरबॉक्स में ऑइल ग्रीस डालना आवश्यक है।
- 2) छलना की एक्सेन्ट्री और पट्टे की सपोर्ट पुली में सीजन के दौरान हर 100 घंटे पर ग्रीस जरूरी है।
- 3) यदि डबल शाफ्ट (कंबाइन) थ्रेशर हो तो मेन शाफ्टीन के बीच बेरिंग में थ्रेशर की सीजन के दौरान हररोज ग्रीस भरना है।
- 4) दि ऑटोफिडर थ्रेशर हो तो ऑटो गियरबॉक्स में बेरिंग में ग्रीस और गियर चक्कर में ऑइल सीजन के दौरान हर 100 घंटे पर डालना है।

**जांगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



## श्रेशर की देखभाल और रखरखाव

- 1) एक जगह पर काम पूरा करके दूसरी जगह पर जाना हो या श्रेशर को रख देना हो तो आखिर के 5 मिनट श्रेशर खाली चालू रखे। सुपड़े को उपर करके श्रेशिंग चेंबर में रही हुई डालियों या कूड़ा को बाहर निकाल दे।
- 2) ट्रैक्टर द्वारा श्रेशर को उसकी मूल जगह पर से हटाने से पहले ट्रैक्टर साईड जॉइंट मुक्त करके हटा ले।
- 3) हररोज श्रेशर को चालू करने से पहले ऑयल ग्रीस जांच लें और नट-बोल्ट की जाँच कर ले।
- 4) सीजन पूरा होने पर श्रेशर के साथ चिपके हुए घास या तीनके दूर करें, श्रेशिंग चेंबर, छलना, सुपड़ा, टेबल इत्यादि साफ करें। श्रेशर पर लगी हुई धूल या घास को कपड़े से साफ कर दे।
- 5) श्रेशर को जंग लगने वाले भाग पर ऑइल लगाये।
- 6) पेडेस्टल बेरींग, गियर बॉक्स को केरोसिन या डीजल से साफ करके नया ऑइल ग्रीस भर दे।
- 7) वी-बेल्ट पट्टे को आईल या ग्रीस न लगे इस बात का ध्यान रखें। वी-बेल्ट को धूप, बारिस से सुरक्षित रहे इस बात का ध्यान रखें।
- 8) सीजन पूरी होने पर किसी भी प्रकार का घिसाव होने पर या टूट-फूट होने पर तत्काल भागों का मरम्मत करे या बदल दे।
- 9) संभव हो तो श्रेशर को शेड के नीचे रख दे। या ताडपत्री या प्लास्टिक के कवर से ढक दें।
- 10) हवा भरे हुए टायर पर श्रेशर का वजन न आये इस तरह स्टैंड या लकड़ी के ब्लॉक पर श्रेशर को लगाये। टायर में हवा भरवा ले।

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

## श्रेशर में समस्या और सुझाव

मौसम के मुताबिक फसल का उपज कम या ज्यादा हो तब श्रेशर चलाते वक्त कुछ बदलाव भी करने पड़ती है।

श्रेशर में कभी-कभी छोटी बड़ी समस्या आती है। इन समस्या को आप थोड़ी समझ से अपने आप ही दूर कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी समस्या और उसके सुझाव दिए गए हैं।

दाना टूटना		
नं.	कारण	सुझाव
1	ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा हो	ट्रैक्टर PTO की स्पीड कम करें
2	सूपड़े में फसल कम या ज्यादा डालना	सूपड़े में एक समान मात्रा में फसल डालना
3	कटर (कोनकेव) ऊँचा होना	कटर (कोनकेव) थोड़ी नीचे उतारे
4	चेम्बर (कटर) के नीचे धान्य या भूँसा भर जाना	चेंबर (कटर) के भीतर के गीसी पड़दे को ऊचा करें।

छलने से बराबर छलना		
नं.	कारण	सुझाव
1	छलना के नीचे की जालियों का भर जाना	पावडी (तवा) का उपयोग कर छलना की जालियों को साफ कर ले
2	छलना के पीछे की तरफ झुका हो	छलना को समतोल करें
3	छलना की स्पीड ज्यादा हो	छलना की स्पीड कम करें
4	छलना में जालिया उल्टी लगाई हो	छलना में जालिया सीधी लगा दे

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



नं.	धान्य साफ न निकलना	
	कारण	सुझाव
1	रोटर की स्पीड कम हो	रोटर की स्पीड बढ़ायें
2	पंखे की स्पीड कम हो	पंखे की स्पीड बढ़ायें
3	छलना को जरूरत से ज्यादा नीचे लिया हो	छलना को ऊंचा करे
4	श्रेशर में चेंबर के अंदर का गीसी पडदा ऊँचा लिया हो	श्रेशर में चेंबर के अन्दर के गीसी पडदा को नीचा करें
5	श्रेशर के चेंबर के नीचे की साईड के पडदे ऊँचा लिया हो	श्रेशर के चेंबर के नीचे की साईड के पडदे सही मात्रा में रखें
6	सुपड़ी में जाली के नीचे खिसकने वाला पतरा अन्दर की तरफ खींचा हुआ हो	सूपडी में जाली के नीचे खिसकने वाला पतरे को बाहर की ओर खींच ले
7	छलना का ढलाव पीछे की तरफ ज्यादा होना	छलना को पीछे से उपर करें
8	छलना की स्पीड ज्यादा या कम होना	छलना की स्पीड मध्यम करें
9	सुपड़े में कम या ज्यादा डालना	सुपड़े में एक समान मात्रा में डालें
10	श्रेशर हुक के पास नीचा होना	श्रेशर हुक के पास ऊँचा करें
11	सुपडी में हवा कम हो	सुपडी में हवा बढ़ा दे
12	हवा के छोटे भूंगले में गिलहरी ने घोंसला बनाया हो	हवा के छोटे भूंगले में गिलहरी का घोंसला दूर करें

## जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

भूसे के साथ दाना जाना		
नं.	कारण	सुझाव
1	श्रेशर की स्पीड ज्यादा होना	ट्रैक्टर PTO की गति कम करे
2	पंखे की स्पीड ज्यादा होना	पंखे की स्पीड कम करे
3	छलना का धीरे चलना	छलना की स्पीड बढ़ाये
4	छलना ज्यादा ऊँचा होना	छलना को सही मात्रा में नीचे उतारे
5	छलना का ढलाव उल्टा होना	छलना को दाने के निकालने की तरफ नीचे करें
6	श्रेशर के चेंबर के नीचे कई साईड के पडदे ज्यादा नीचे रखे होना	श्रेशर के चेंबर के नीचे की साईड के पडदे सही मात्रा में ऊँचे करके सेट करें
7	श्रेशर में चेंबर की भीतर का गिसी का पडदा नीचे होना	श्रेशर में चेंबर की भीतर का गीसी का पडदा सही मात्रा में उँचे उठा ले

श्रेशींग डम (कोठी) भर जाना		
नं.	कारण	सुझाव
1	एक साथ ज्यादा डालना	एक बार कोठी खाली करके सही मात्रा में डालना चालु करे
2	मेन रोटार की स्पीड कम हो	मेन रोटार की स्पीड सही तरह से बढ़ाये
3	गीले या हरे पूले डालना	गीले या हरे पूले न डाले सूखा ही डाले
4	श्रेशींग चेंबर के अन्दर का गीसी पडदा नीचे उतर गया हो	गिसी पडदे को सही मात्रा में ऊपर ले
5	श्रेशींग चेंबर का कटर ज्यादा नीचे रखा जाना	श्रेशींग चेंबर का कटर थोड़ा सा ऊपर करें

## जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



नं.	थ्रेशर का कंपन	
	कारण	सुझाव
1	रोटर का शाफ्ट आउट होना	रोटर की शाफ्ट थ्रु करवा ले
2	थ्रेशर के टायर का सपोर्ट ढीला पड़ गया हो	पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को लगाकर टायर को सपोर्ट दे
3	टायर में हवा का दबाव कम हो	टायर में सही मात्रा में हवा भरवा ले
4	मेन रोटर का सही तरह से बैलेंस न किया हो	मेन रोटर का बैलेंस करवा ले
5	बेरिंग टूट गई हो	नयी बेरिंगे डालवा दे
6	थ्रेशर या ट्रैक्टर साइट जॉइंट आउट हो गया हो	जॉइंट सही तरह से लेथ पर चढ़ाकर रिपेयर करवा ले
7	थ्रेशर में रोटर के पाटे गलत तरीके से लगाए गए हो	रोटर के पाटे खोलकर लाईन में लगा दे
8	थ्रेशर का लोडव्हील आउट होना	लोडव्हील बदलकर नया डाल दे
9	वी-बेल्ट(पट्टे) ढीले पड़ गए हो	सपोर्टपुली से पट्टे टाइट करे

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

नं.	धान्य साफ न निकलना	
	कारण	सुझाव
1	रोटर की स्पीड कम हो	रोटर की स्पीड बढ़ायें
2	पंखे की स्पीड कम हो	पंखे की स्पीड बढ़ायें
3	छलना को जरूरत से ज्यादा नीचे लिया हो	छलना को ऊंचा करे
4	श्रेशर में चेंबर के अंदर का गीसी पडदा ऊँचा लिया हो	श्रेशर में चेंबर के अन्दर के गीसी पडदा को नीचा करें
5	श्रेशर के चेंबर के नीचे की साईड के पडदे ऊँचा लिया हो	श्रेशर के चेंबर के नीचे की साईड के पडदे सही मात्रा में रखें
6	सुपड़ी में जाली के नीचे खिसकने वाला पतरा अन्दर की तरफ खींचा हुआ हो	सूपडी में जाली के नीचे खिसकने वाला पतरे को बाहर की ओर खींच ले
7	छलना का ढलाव पीछे की तरफ ज्यादा होना	छलना को पीछे से उपर करें
8	छलना की स्पीड ज्यादा या कम होना	छलना की स्पीड मध्यम करें
9	सुपड़े में कम या ज्यादा डालना	सुपड़े में एक समान मात्रा में डालें
10	श्रेशर हुक के पास नीचा होना	श्रेशर हुक के पास ऊँचा करें
11	सुपडी में हवा कम हो	सुपडी में हवा बढ़ा दे
12	हवा के छोटे भूंगले में गिलहरी ने घोंसला बनाया हो	हवा के छोटे भूंगले में गिलहरी का घोंसला दूर करें

## जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com



## वॉरंटी और सर्विस

### वॉरंटी

हमारे थ्रेसर की 9 साल की उत्पादक वॉरंटी और गॅरंटी होती है थ्रेसर में इस्तेमाल होने वाले तैयार पुरजों की वॉरंटी उस उत्पादक की होती है। इस समय के दौरान थ्रेसर में तूट-फूट या स्पेरपार्ट्स बदलने या सर्विस के लिये ग्राहक को खरीदा हुआ थ्रेसर अपने खर्च और जोखिम पर फैक्ट्री में लाना होगा। थ्रेसर में रिजल्ट और एवरेज की गॅरंटी दी जाती है। थ्रेसर के तैयार स्पेरपार्ट्स की किसी भी प्रकार की गॅरंटी या वारंटी नहीं दी जाती है।

### सर्विस

हर थ्रेसर के साथ तीन सर्विस दी जाती है। थ्रेसर सर्विस चार्जेबल है।

शीतऋतु - किसी भी फसल में एक सर्विस (अेरंडा, रायडा, गेहूं, जीरा)

ग्रीष्मऋतु - किसी भी फसल में एक सर्विस (बाजरा)

वर्षाऋतु - किसी भी फसल में एक सर्विस (बाजरा, गुवार, जुवार, मूंग, मुठ, उड़द, मक्का)

थ्रेसर के जो भी सवाल के जवाब अपने आप न ला सके तब डीलर या कंपनी को बताकर सर्विसमैन को बुला ले किसी भी सामान्य वर्कशॉप में मरम्मत न करवाये। सर्विस लेने के बाद थ्रेसर सर्विस रिपोर्ट पर आपकी टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करके सर्विसमैन को देना अनिवार्य है।

### नोंद

थ्रेसर कैसे चलाना है और भिन्न-भिन्न फसल में फसल में किसी तरह सेटिंग करना है इसलिये थ्रेसर मार्गदर्शिका का अभ्यास करना आवश्यक है।

**जांगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com

# Warranty Card

**Name of customer**

**Address**

**Contact no**

**Name of machine**

**Model**

**Serial no**

**Date of purchase**

**Signature of customer**

**Signature of dealer with seal**

**जाँगिड़ एग्रो इन्जिनियर्स**

शाहपुरा रोड़, अजीतगढ़ (सीकर) राजस्थान

Mob. 9829113746 | 9462732396, Email – jangidagroeng@gmail.com